

## थारी चुनड दादी जी लेहर लेहर लहराई रही

थारी चुनड दादी जी लेहर लेहर लहराई रही,

भादी मावस जद बी आवे मन म्हारा हशवि  
थारी चुनड की छाया माँ सभी सुहागन चाहवे  
सब मिल कर दादी जी थारिया चुनडी ओदाई रही  
थारी चुनड दादी जी लेहर लेहर लहराई रही,

सबी सुहागन बागन मैया थाने खूब सजावे,  
कर सोला शिंगार थारे हाथा मेहँदी रचावे,  
सब मिल कर ज्योत लवे दादी जी मंगल गाये रही  
थारी चुनड दादी जी लेहर लेहर लहराई रही,

थारी आंचल की छाया माँ माहरे सिर पर वारो  
कहे गोपाल के टाबरियां पर प्यार लुटा दो थारो  
थारी किरपा दादी जी या म्हाने तो नचाये रही  
थारी चुनड दादी जी लेहर लेहर लहराई रही,

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/20637/title/thari-chunad-dadi-ji-lehar-lehar-lehraai-rahi>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |